

# ज़रा रुकें और सोचें

## इन फ़ेडरल (संघीय) चुनावों में किसी भी जानकारी के स्रोत को जानने की कोशिश करें

फ़ेडरल चुनावों के दौरान बहुत सी जानकारी लोगों में बाँटी जाती है जिसके द्वारा आप किसे वोट दें, आपके इस निर्णय को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप जो देखें, सुनें या पढ़ें, उस पर ध्यान दें। यदि आप जानकारी की सच्चाई के बारे में विश्वस्त नहीं हैं, तो आप उसके बारे में अपने विचार बनाने और कोई निर्णय लेने में सहायता के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं।

### मतदाता होने के नाते आपका दायित्व

इस बात पर विचार करें कि क्या जानकारी:

#### विश्वसनीय है

क्या वह किसी विश्वसनीय और पहचाने जा सकने वाले स्रोत से है? क्या आप जानकारी के स्रोत को जानते हैं? क्या वह किसी अधिकृत मीडिया संस्थान या सत्य-प्रमाणित सामाजिक मीडिया अकाउंट से आई है? चुनाव संबंधी क़ानून संचारित की जाने वाली जानकारी की सत्यता का नियमन नहीं करते।

#### ताज़ा है

वह कब प्रकाशित की गई थी?

यदि कोई पोस्ट/अन्य जानकारी आपके साथ आज शेयर की गई है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ताज़ा है। हमेशा यह जाँच लें कि जानकारी का मूल स्रोत क्या है और वह किस तारीख को प्रकाशित की गई थी।

#### सुरक्षित है

क्या वह स्कैम हो सकती है?

यदि सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल माध्यमों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी के स्रोत या उसमें दी गई जानकारी को लेकर आपको कोई संदेह है, तो उस पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में ध्यान से सोचना आवश्यक है।

यदि ऐसा करना संभव हो तो जानकारी के स्रोत से संपर्क करने की जानकारी की जाँच कर लें।

### ए ई सी (ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग) की ज़िम्मेदारियाँ

ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन (ए ई सी) एक निष्पक्ष संस्था है जिसे फ़ेडरल चुनाव करवाने का कार्य सौंपा गया है। ए ई सी की ज़िम्मेदारियों में शामिल हैं:

चुनावों की प्रक्रिया के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना अपने विज्ञापनों की मुहिम, वेबसाइट, संपर्क केंद्र और सोशल मीडिया अकाउंटों के माध्यम से ए ई सी नामांकन करवाने, मतदान करने और चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के बारे में आसानी से उपलब्ध जानकारी प्रदान करेगा।

यदि चुनाव की इन प्रक्रियाओं के बारे में कोई ग़लत जानकारी है तो ए ई सी उस जानकारी को सही करने के लिए कदम उठाएगा। इन चुनाव प्रक्रियाओं के अलावा चुनावों संबंधी अन्य कोई भी जानकारी सही है या नहीं, यह सुनिश्चित करना ए ई सी की ज़िम्मेदारी नहीं है।

चुनावों से संबंधित जानकारी के स्रोत की जाँच करें

चुनावों से संबंधित कुछ जानकारी का अधिकृत किया जाना अनिवार्य है ताकि आप यह जान सकें कि उस जानकारी का स्रोत क्या है। यदि चुनावों से संबंधित किसी जानकारी के सही तरह से अधिकृत न होने की कोई शिकायत आती है तो ए ई सी उसकी जाँच करेगा।

